

पोर्टल की मुख्य विशेषताएँ



अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर कभी भी विडियो/ट्यूटोरियल देखें। ऑफ़लाइन देखने के लिए विडियो डाउनलोड करें।



बहु भाषा समर्थित इंटरफ़ेस



MoHUA से प्रमाण पत्र



DAY-NULM से संबंधित संदर्भ दस्तावेज़ हर वक़्त आपकी आसान पहुँच में



विडियो/ट्यूटोरियल को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर अपने साथियों के साथ शेयर करें



चर्चा मंच में अन्य प्रतिभागियों से बातचीत करें



कुछ ट्यूटोरियल की झलक

ट्यूटोरियल की यह श्रृंखला पारंपरिक प्रशिक्षण वीडियो से भिन्न है। यह श्रृंखला रमीला, सुशीला और गुल जैसी वास्तविक, आम महिलाओं के साथ एक बस्ती की कहानी बताती है। इनके माध्यम से दर्शकों को एक SHG के गठन, बैंक खाते खोलने और आजीविका के लिए ऋण लेने जैसी प्रक्रियाओं से अवगत कराया जाता है। कैसे ये महिलाएं एक समूह की ताकत को पहचानती हैं और कैसे DAY-NULM की मदद से न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में आने वाली चुनौतियों से उबरती हैं, बल्कि अपनी बस्ती के समस्याओं को सुलझाने में भी समर्थ होती हैं।



एक और एक ग्यारह

यह ट्यूटोरियल स्वयं सहायता समूहों के महत्व और उनके गठन के बारे में बताता है। बस्ती की महिलाएं एक साथ काम करते हुए CRP भावना की मदद से प्रगतिशील SHG का गठन करती हैं।



SHG का बस्ता

दूसरा ट्यूटोरियल में SHG के विभिन्न रजिस्ट्रारों के बारे में सिखाया जाता है। SHG की सचिव रमीला CO और CRP से बहीखाता लिखना सीखती है।



उजाला

यह ट्यूटोरियल बैंक लिंकेज और SHG के ब्याज सब्सिडी के बारे में बताता है। प्रगतिशील SHG के सभी सदस्य व्यक्तिगत बैंक खाते खोलते हैं।



कारवाँ बढ़ता गया

यह ट्यूटोरियल एरिया लेवल फेडरेशन (ALF) पर प्रकाश डालता है और उसकी सदस्यता के लाभ बताता है। प्रगतिशील SHG के सदस्य अन्य SHG के साथियों से मिलते हैं और ALF में शामिल होने का निर्णय लेते हैं।



सालगिरह

इस ट्यूटोरियल में, SHG के सदस्य साल भर में हुए बदलावों की अपनी-अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। यह बस्ती में बुनियादी सेवाओं को बेहतर बनाने में प्रगतिशील SHG की ताकत को दर्शाता है। वार्षिक बैठक में, SHG एक नया व्यवसाय शुरू करने और बैंक से ऋण लेने का भी निर्णय लेता है।

अगले ट्यूटोरियल...

- बैंक से ऋण कैसे लें और मार्केट सर्वे कैसे करें
- अन्य सफल सेनीटेशन-आधारित आजीविकाओं से सीखें
- पुरुष SHG समूहों का गठन

नॉलेज मैनेजमेंट सपोर्ट: Urban Management Centre (www.umcasia.org)

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: ulearn@umcasia.org

U-LEARN

शहरी आजीविका ई-लर्निंग और संसाधन नेटवर्क
DAY-NULM पदाधिकारियों और लाभार्थियों के क्षमता वर्धन का ऑनलाइन पोर्टल



शहरी आजीविका ई-लर्निंग और संसाधन नेटवर्क

‘आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय’ (MoHUA), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) शहरी गरीबों के जीवन में बदलाव का नेतृत्व कर रहा है।

U-LEARN ई-लर्निंग पोर्टल का उद्देश्य है- DAY-NULM मिशन (NMMU, SMMU, CMMU) के सभी पदाधिकारियों, कम्प्यूनिटी ओर्गनाइज़र, कम्प्यूनिटी रिसोर्स पर्सन, रिसोर्स ऑर्गनाइजेशन, एरिया लेवल फ़ेडरेशन और स्वयं-सहायता समूहों के सदस्यों और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित और कार्यकारी अधिकारियों का क्षमता वर्धन करना। U-LEARN पोर्टल गैर-सरकारी संगठनों और अनुसंधान संगठनों के लिए भी एक नॉलेज पोर्टल के रूप में सहायक है।

नई तकनीकों की सहायता से DAY-NULM की फील्ड में कार्यरत टीमों को प्रशिक्षित किया जा सकता है।

U-LEARN एक ऐसा प्लैटफ़ॉर्म है, जहाँ DAY-NULM के सभी दिशा-निर्देश और सफल प्रणालियों का संग्रहण है। U-LEARN कंप्यूटर स्क्रीन पर केवल एक प्रस्तुति देखना मात्र नहीं है। मोबाइल फोन के माध्यम से, प्रतिभागी कई लर्निंग मटिरियल का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि सरलता से समझ आने वाले विडियो/ट्यूटोरियल, सफल प्रणालियों पर केस अध्ययन और कई संदर्भ दस्तावेज़। विडियो/ट्यूटोरियल देखने और क्विज़ के सफल समापन पर, प्रतिभागी को MoHUA का प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा।




U-LEARN

4 सरल चरणों में ई-लर्निंग




1 पोर्टल पर रजिस्टर करें

मोबाइल एप डाउनलोड करें/वेबसाइट खोलें, अपने फोन नंबर या ईमेल (फेसबुक या गूगल) का उपयोग करते हुए लॉग इन करें। प्रोफ़ाइल अनुभाग में सभी विवरण भरें।




2 विडियो/ट्यूटोरियल देखें

वीडियो देखने के लिए, “DAY-NULM” टैब और फिर इच्छित वीडियो पर क्लिक करें। प्रत्येक ट्यूटोरियल के लिए वीडियो और पढ़ने की सामग्री को बाद में ऑफ़लाइन देखने के लिए आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं।



3 परीक्षा दे

“परीक्षा” पर क्लिक करें और क्विज़ को पूरा करें। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं या अपना सुझाव देना चाहते हैं, तो चर्चा मंच पर टिप्पणी लिखें या मॉडरेटर से संपर्क करें।



4 प्रमाण पत्र प्राप्त करें

परीक्षा के सफल समापन पर, आपको आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

